



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

04 अवैध शस्त्र, 04 कारतूस सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में वृहद चेकिंग अभियान चलाये जाने एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना मानपुर, मिश्रिख, तालगांव व कोतवाली देहात टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को 04 अवैध शस्त्र व 04 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

1. थाना मानपुर द्वारा 01 अवैध तमंचा व 01 कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:- थाना मानपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रोहित चौहान पुत्र शान्ति प्रसाद नि० स्योढा थाना मानपुर के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 89/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।
2. थाना मिश्रित द्वारा 01 अवैध तमंचा, 01 कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:- थाना मिश्रित पुलिस द्वारा अभियुक्त बराती पुत्र गंगासागर बाजपेयी नि० ग्राम तिलवारी थाना चांदपुर जिला फतेहपुर के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 163/21 धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
3. थाना तालगांव द्वारा 01 अवैध तमंचा, 01 कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:- थाना तालगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त नबी अहमद पुत्र मोहम्मद हुसैन नि० अंगरासी शेखवापुर थाना तालगांव सीतापुर के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 122/21 धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
4. थाना कोतवाली देहात द्वारा 01 अवैध तमंचा, 01 कारतूस सहित 01 गिरफ्तार:- थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र छंगा लाल निवासी हुसैनगंज थाना कोतवाली देहात सीतापुर के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 121/21 धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

